



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

शक्तिशाली परमेश्वर — स्ट्रॉन्स नंबरर्स सागे एक KJV बाइबल अध्ययन

बैतलहम तै पहले यीशु कौण था — बहुवचन की आवाज़, यहोवा का दूत, इसहाक पर की लकड़ी
मौलिक बाइबिल सिद्धांत — यीशु मसीह का सुसमाचार

शुरूआती बात

यह हिस्सा पूछता है के यीशु कौण है, सृष्टि तै शुरू करते हुए, जहां परमेश्वर कहवै है, "आओ हम मनुष्य नै अपने स्वरूप में बणावां।" यह उस एक नै फालो करै जिसे यहोवा का दूत कहा गया, जिसे लोग आमने-सामने मिले अर उसनै परमेश्वर कहा। यह उस लकड़ी पर खत्म होवै जो इसहाक पर राखी गई, वो एकलौता बेटा जिसनै अब्राहम प्यार करता था। हरेक जवाब बाइबल तै ही आवै है, बाइबल के अपने शब्दां में।

तीन सवाल जिनका जवाब यो अध्ययन देवै सै:

1. जै परमेश्वर एक है, तो उत्पत्ति 1:26 में बोलण वाला "हम" कौन है?
2. यहोवा का दूत कौन है, जिसे माणसां नै आमने-सामने मिल्या अर परमेश्वर कहा?
3. इसहाक, जो एकलौता बेटा था, उसपे धरी लकड़ी किस बात की ओर संकेत करती थी?

ओपनिंग एंकर

Isaiah 9:6

एक बालक जन्मा + एक बेटा दिया गया --> उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर कहलावैगा।

यीशु के जनम तै सात सौ साल पहल्या, एक नबी नै लिखा था के यो बालक 'पराक्रमी परमेश्वर' कहवावैगा। बाळक यीशु एक चारे की खरही म्ह पड्या था। इस पद नै धीरे-धीरे पढ़ो। ये पद इस अध्ययन का सारा संदेश बतावै सैं।

A. वो परमेश्वर जिन्ने कहा "हम" — एक परमेश्वर, अर एक से ज्यादा बोलण वाले

A1. Genesis 1:26

आओ, हम माणस नै अपने स्वरूप में, अपनी छब के मुताबिक बणावां --> इस करके परमेश्वर नै माणस नै अपने स्वरूप में बणाया।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 1:26 अर उत्पत्ति 1:27 नै साथ में पढ़ो। दोनू आयत्तां के बीच के फर्क नै हल्का ना करो। उत्पत्ति 1:26 में "हम" अर "हारे" लिखा सै। उत्पत्ति 1:27 में "अपने रूप" अर "परमेश्वर नै बणाया" लिखा सै, दोनू इकवचन में। बाइबल बिना किसे माफी के दोनू आयत्तां नै एक साथ बता

रही सै। बाइबल बस दोनूं नै बता देवै सै।)

A2. Genesis 3:22

अब आदमी भला-बुरा जाणण म्ह म्हारे म्ह तै एक ज्यां हो गया।

A3. Genesis 11:7

आओ हम उतर चलें + अर उनकी भाषा गड़बड़ कर दें।

A4. Isaiah 6:8

मैं किसे भेजूं + अर हमारे खात्तर कौण जावैगा?

(मेरे निजी विचार: यशायाह 6:8 नै ध्यान तै देखो। यशायाह 6:8 म्ह एके ए वाक्य म्ह दोनूं रूप सै: "मैं किसने भेजूं" अर "म्हारे खात्तर कौण जावैगा।" वोए बोलण आळा एकवचन अर बहुवचन रूप एक साथ काम म्ह लेवै सै। यो कोए लिखण की गलती कोनी सै। यो परमेशवर का अपने आपनै अकेल्ले खात्तर बहुवचन शब्द काम म्ह लेण का मामला भी कोनी सै। योए ढाळ कई बार होवै सै, बाइबल की कई अलग-अलग किताबां म्ह, कई सदियां तक।)

A5. Deuteronomy 6:4

सुण, हे इस्राएल: यहोवा हमारा परमेश्वर एके यहोवा सै।

(मेरे निजी विचार: व्यवस्थाविवरण 6:4 सारे अध्ययन नै संचालित करै सै। एक ए परमेश्वर सै। दो परमेश्वर कोनी सै। तीन परमेश्वर कोनी सै। घणे परमेश्वर कोनी सै। इस अध्ययन की जो भी आयत दूसरे परमेश्वर की तरफ इशारा करदी दिक्खै, वा गलत पढ़ी गई सै। व्यवस्थाविवरण 6:4 इसकी कसौटी सै। ध्यान दयो इस आयत म्ह "एक" खात्तर के हिब्रू शब्द का इस्तेमाल होया सै। वो शब्द सै इखाद। इखाद वोए शब्द सै जो सांझ अर सबेरे नै ONE दिन कहवै बखत बरता जावै सै, जिब के दिन के दो हिस्से होवै सै। इखाद वोए शब्द सै जो मरद अर उसकी घरआळी नै ONE देह कहवै बखत बरता जावै सै, जिब के मरद अर घरआळी दो अलग माणस सैं। बाइबल नै "एक" खात्तर इसा शब्द चुण्या जिसके अंदर एक तै ज्यादा जणे समा सकैं। फेर उत्पत्ति 1:26 म्ह लिख्या सै के परमेश्वर नै कहा "आओ हम...")

A6. Isaiah 45:5

मे यहोवा सूं + मेरे सिवा और कोए कोन्या + मेरे सिवा और कोए परमेश्वर कोन्या।

(मेरे निजी विचार: यशायाह 45:5 इस सच्चाई का दूसरा पहलू बतावै सै। यो अध्ययन यशायाह 45:5 तै बचैगा नही। परमेश्वर साफ-साफ कहवै सै के उसके अलावा और कोए परमेश्वर कोनी। यो अध्ययन इन बाकी पत्रां म्ह जो भी पावैगा, वो कदे भी दूसरे परमेश्वर नै नही जोड़ सकै। यो अध्ययन असल म्ह जो पावैगा, वो दूसरे परमेश्वर तै भी अजीब अर बढ़िया सै। यो अध्ययन एक परमेश्वर नै मिलैगा जो अपने आप नै माणसां पै जाहिर करण लागरया सै।)

B. वो जिसकू प्रभु का दूत कहा गया — जिसकू परमेश्वर भी कहा गया

"स्वर्गदूत" के तौर पै अनुवाद करया गया इब्रानी शब्द मलाक (H4397) सै। मलाक का मतलब सै वो जिसनै भेज्या गया हो। मलाक भेजे गए माणस के काम-काज नै बतावै सै, उसकी प्रकृति नै नही। नीचे दिए गए वृत्तांतां म्ह ध्यान द्यो के बाइबल इस खास भेजे गए माणस कात्रे के करै सै।

B1. रेगिस्तान म्ह हाजिरा — वा उसनै नाम देवै सै

Genesis 16:7

प्रभु के दूत नै कहा, मैं तेरे वंश नै बहोत बढ़ा दूंगा।

Genesis 16:13

उसनै यहोवा का नाम, जो उसतै बोल्या था, यू राख्या, तू परमेश्वर मन्ने देखण आळा सै।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 16 म्हों दो बात पाठक नै रुकाणी चाहिए। पहली, जिसनै "यहोवा का दूत" कहा गया, वो कहता है "मैं तेरी सन्तान नै बढ़ावांगा।" यहोवा का दूत यूं नही कहता के "यहोवा तेरी सन्तान नै बढ़ावैगा।" यहोवा का दूत ऐसे बोलता है जिसा वो खुद ई बढ़ाणे वाला हो। दूसरी, बाइबल का पाठ खुद, हाजिरा की राय नही, इस यहोवा के दूत नै "यहोवा जो उसनै बोल्या" कहता है। हाजिरा भी इसी व्यक्ति नै "तू परमेश्वर" कहती है। उत्पत्ति की किताब का कथाकार हाजिरा की बात सै सहमत है।)

B2. इसहाक पै हाथ — वो अपनी सौं खुद खावै सै

Genesis 22:11

क्योंके तन अपने बेटे, अपने एके बेटे नै मेरै तै नही राख्या।

Genesis 22:15

मैं अपनी सौं खाऊँ सूं, प्रभु कहवै सै --> तेरे वंश म्ह धरती की सारी जात्तां आशीष पावैगी।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:11-18 म्ह दो वाक्यां पै ध्यान दियो। पहला वाक्य सै "तन्त्रै अपना बेटा मन्ने नही रोक्या।" अब्राहम अपना बेटा परमेश्वर नै चढ़ाण लाग रहा था। इस वाक्य म्ह बोलण आळा कहवै सै के बेटा बोलण आळे तै नही रोक्या गया। दूसरा वाक्य सै "मन्ने अपनी सौं खाई सै, याहवे कहवै सै।" पुराणे बखत म्ह, माणस अपने तै बड़े की सौं खाया करदा था। एक बणाया होया दूत जो सिर्फ सन्देश पहुँचावै सै, वो अपने आप की सौं नही खा सकदा। एक

बनाया होया दूत परमेश्वर के वाचा (नाम) तै सों पै दस्तखत न्ही करदा। इब्रानियों 6:13 इसका कारण देवै सै। इब्रानियों 6:13 कहवै सै के परमेश्वर नै अपणी ए सों खाई। इब्रानियों 6:13 कारण बतावै सै: "क्यूँके वा अपने तै बड़े की सों न्ही खा सकदा था।")

B3. याकूब एक मनुष्य के साथ भिड़ता है — अर उस जगह का नाम "परमेश्वर का मुहड़ा" धरता है

Genesis 32:24

वहां एक आदमी उसके साथ भिड़ गया --> मैं तुझे जाने नहीं दियूंगा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे।

Genesis 32:28

राजकुमार की तरियां तन्नै परमेश्वर के गैल शक्ति पाई सै --> मन्नै परमेश्वर ताहीं आमने-सामने देख्या, अर मेरा जीवन बच्चा रह्या।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 32 का पाठ इस व्यक्ति नै एक माणस कहवै। यो माणस जो याकूब के साथ लड़ता है, कहवै कि याकूब की परमेश्वर के साथ ताकत है। याकूब उस जगह का नाम "परमेश्वर का मुखड़ा" राखता है। याकूब कहवै कि उसकी जान बच गई। याकूब इस माणस सूं नाम पूछता है। याकूब नै कोए नाम नहीं मिलदा, बस एक सवाल वापस मिलदा है। इस अनुत्तरित सवाल नै नाम के बारे में याद राख। योहे सवाल फेर सूं आवै है, बाइबल की एक और किताब में, सैकड़ों साल बाद।)

B4. जलती झाड़ी — वो स्वर्गदूत जो मैं हूं सूं सै

Exodus 3:2

प्रभु का दूत आग की लौ में दिखाई दिया --> परमेश्वर नै उसने झाड़ी के बीच तै बुलाया।

Exodus 3:14

मैं जो हूं सो हूं --> मैं नै थारे कान्ही भेज्या सै।

(मेरे निजी विचार: निर्गमन 3:2 में कहा सै यहोवा का दूत। निर्गमन 3:4 में कहा सै यहोवा, अर परमेश्वर। एके झाड़ी, एके आग, अर एके आवाज दोनूं आयतां में आवै सै, चार आयत आगे-पाछे। बाइबल इसने कदे भी विरोधाभास कोनी मानदी। योही आवाज फेर वो नाम देवै सै जो इस्राएल सारी उमर धारण करेगा: मैं वोए सूं जो मैं सूं।)

बी5. मानोह अर उसकी लुगाई — वो नाम जो अचम्भा सै

Judges 13:3

यहोवा का दूत उस बिरबान्नी के स्याम्ही आया --> तू गर्भवती होवैगी, अर बेटा जणैगी।

Judges 13:17

तू मेरा नाम क्यूं पूछे सै, जबके वो तो गुप्त सै?

Judges 13:20

प्रभु का दूत वेदी की लौ में ऊपर चढ़ गया --> हम जरूर मरेंगे, क्यूँके हमने परमेश्वर नै देख लिया।

(मेरे निजी विचार: न्यायियों 13 में तीन बात ध्यान में आवै सै। मानोह नाम पूछे सै, ठीक जैसा याकूब नै उत्पत्ति 32 में पूछ्या था। नाम मानोह तै फेर तै छुपाया जावै सै, इस बार एक बताई होई वजह के साथ। इस वजह खात्तर दिया गया हिब्रू शब्द सै pily (H6383)। KJV pily का अनुवाद "secret" करै सै। Pily का मतलब सै इतना अद्भुत के जाण्या न्ही जा सकै। Pily उससे मूल तै आवै सै जितै pele (H6382) आवै सै, वो शब्द जिसका अनुवाद यशायाह 9:6 में "Wonderful" करया गया सै, जिते हमने जलम्या होया बाळक नाम दिया जावै सै। न्यू ए यहोवा का दूत फेर वेदी की ज्वाला में उपर चढ़ जावै सै। मानोह का खुद का नतीजा यो न्ही सै के "हमने एक दूत देख्या सै।" मानोह का नतीजा सै के "हमने परमेश्वर नै देख्या सै।")

बी6. यरीहो के बाहर सेनापति — पूजा करी, अर जूते उतारे

Joshua 5:13

यहोशू अपने मुँह के बल धरती पै पड़ गया, और उपासना करी --> अपने पाँव तैं अपनी जूती काढ़ ले; क्यूँके जिस जगहों पै तू खड़ा है वो पवित्र है।

अलग नजरिया, एक ही घटना — दो मनुष्यों नै अपने जूते उतारण खात्तर कहा गया

Exodus 3:5

अपने पाँव तै जूती उतार दे, क्यूँके जिस जगह पर तू खड़ा सै वो पवित्र भूमि सै।

(मेरे निजी विचार: ध्यान दो के योए हुकम, लगभग योए शब्दों में, दो अलग-अलग माणसां नै दिया गया, सैकड़ों साल के फासले पै। झाड़ी पै, हुकम उस आवाज तै आवै सै जिसने बाइबल का पाठ यहोवा अर परमेश्वर कहवै सै। यरीहो के बाहर, हुकम उस माणस तै आवै सै जो हाथ में तलवार लेकर खड़ा सै। यो माणस जो यरीहो के बाहर सै, यहोशू नै अपने मुँह के बल पड़के इसकी आराधना करण देवै सै। यो माणस यहोशू नै आराधना करण तै कोन्या रोकै। इसकी तुलना करो उस तै जो एक सच्चा सृजया होया स्वर्गदूत करै सै जिब कोए माणस उस स्वर्गदूत की आराधना करण की कोशिश करै सै। स्वर्गदूत कहवै सै, "मैं तेरा संगी सेवक सूं" (प्रकाशितवाक्य 19:10)। स्वर्गदूत कहवै सै, "परमेश्वर की आराधना कर" (प्रकाशितवाक्य 22:9)। यहून्ना नै दो बार स्वर्गदूत की आराधना करण की कोशिश करी। स्वर्गदूत नै दो बार यहून्ना की आराधना नै ठुकरा दिया। यरीहो के बाहर यहोशू की आराधना नै किसे नै कोन्या ठुकराया।)

बी7. इब नया नियम एक साफ बात कहवै सै

यूहन्ना 1:18 परमेशवर ताहीं किसे नै कदे कोन्या देखा, पर परमेशवर के इकलौते बेटे नै, जो सदा परमपिता के गैल सै, उससे नै म्हारे ताहीं दिखाया। [G1834 exegeomai ■] [G3439 monogenes ■]

कदी किसे मनुष्य नै परमेश्वर को नहीं देखा --> इकलौते बेटे नै उसका प्रगट कर दिया।

यूहन्ना 5:37 अर पिता जिसनै मेरै ताहीं भेज्या सै, उससे नै मेरी गवाही दी सै। थमनै ना कदे उसका वचन सुण्या, अर ना उसकी शक्ल देखी सै,

थमनै ना कदे उसका वचन सुण्या, अर ना उसकी शक्ल देखी सै.

1 तीमुथियुस 6:16 वोए सै जो सदा खात्तर जिन्दा सै, अर वो उस चमकदार रोशनी म्हा रहवै सै, जिसके धेरै कोए न्ही आ सकदा, अर ना उस ताहीं किसे माणस नै देखा अर ना कदे देख सकै सै। उसकी प्रतिष्ठा अर राज्य युगानुयुग रहवैगा। आमीन।

उस ज्योति म्हा बसणिया जित्त कोए मात्रस पूग ई कोनी सकता --> जिसनै ना कोए मात्रस देखा, अर ना देख सकै सै।

अब बाइबल के दोनू हिस्सां नै साथ-साथ धर के दोनू हिस्सां नै एक साथ पढ़ो।

पुराणा नियम बार-बार कहवै सै के माणसां नै इस माणस नै देखा, उसके गैल बात करी, उसके स्याम्ही खाणा खाया, उसके गैल कुश्ती लड़ी, अर जिन्दा रहे।

नये नियम म्हा साफ-साफ, अर तीन बार बतायाग्या सै के परमेश्वर पिता नै अठे तक किसे नै भी न्ही देखा, अर कोए भी परमेश्वर पिता नै देख कोन्या सकदा।

दोनू बात सच्ची सैं। जो जन पुराने नियम म्हा लोगां नै दिख्या अर जिस पिता नै लोग देख न्ही सक्या, वो दोनों एक ही जन नाहीं सैं। यूहन्ना बता देवै सै के दिखणीय जन कौण सैं। यूहन्ना कहवै सै के दिखणीय जन वो इकलौता बेटा सैं, जो बेटा पिता की गोद म्हा सैं। यूहन्ना कहवै सै के इकलौता बेटा नै परमेश्वर पिता नै बाहर ल्याइया सैं, जित्त परमेश्वर पिता नै देखा जा सकै सै।

[आयतां का जोड़ आपस में करया गया - एक भी आयत इसे अकेल्ले कहती नहीं है]

(मेरे निजी विचार: याहँ ध्यान राखणा अर ईमानदार रहणा जरूरी सै, क्यूँके योही सै जित्त बंदा बाइबल म्हा कुछ मिलाणा शुरू कर सकै सै। जो सीधा-सीधा लिख्या सै, वो यो सै: पुराणे नियम का पाठ खुद इस भेजे होड़ जणे नै योहोवा अर परमेश्वर कहवै सै, अर जो माणस इस भेजे होड़ जणे तै मिले, वो भी योही कहवै सैं। यो हिस्सा कोए नतीजा कोनी सै। यो तो जो वाक्य कहवैं सैं, वोए सै। जो पदों नै जोड़ण तै मिले सै, वो यो सै: के यो खास दिखणीये जणा खासकर बेटा (पुत्र) सै। कोए भी एक पद यो कोनी कहन्दा "उत्पत्ति 16 म्हा योहोवा का दूत यीशु सै।" यो नतीजा यूहन्ना 1:18, यूहन्ना 5:37, अर 1 तीमुथियुस 6:16 नै पुराणे नियम की कहाणियाँ के धेरै राखके अर यो पूछके मिले सै के किसनै देखा जा रहा था। योही कारण सै के टैग याहँ सै, अर टैग याहँ ही रहवैगा।)

B8. अर वो संदेशवाहक-जो-प्रभु-है पुराने नियम के आखरी में फेर सामने आवै सै

Malachi 3:1

मैं अपना दूत भेजूँगा + वो मेरे आगे राह तैयार करेगा --> प्रभु अचानक अपने मन्दिर म्हा आवैगा, यानी वाचा का दूत।

अलग नजरिया, एक ही दृश्य — दूत का वायदा करया गया, अर दूत की पहचान करी गई

मरकुस 1:2 जिसा के यशायाह नबी की किताब म्हा परमेशवर नै अपने बेटे ताहीं कहा सै: “देख, मै अपने दूत नै तेरे आगे भेजूँ सूं, जो तेरे खात्तर लोगां नै तैयार करेगा। (3) जंगल-बियाबान म्हा एक रुक्का मारणीये का बोल सुणाई देवै सै के प्रभु के आण खात्तर अपने-आपनै तैयार करो।” (4) वो दूत यूहन्ना था, जो जंगल-बियाबान म्हा कहवै था, “पाप करणा छोड़ दो अर बपतिस्मा ल्यो परमेशवर थारे पाप माफ कर देगा।”

देख, मैं अपने दूत को तेरे मूंडे भेजूँ सूं --> प्रभु का मार्ग तैयार करो।

(मेरे निजी विचार: मलाकी 3:1 एक ही आयत म्हा दो भेजे गए जनां का नाम लेवै। एक भेजा गया जन आगे जाके रस्ता साफ करण खात्तर जावै। दूसरा भेजा गया जन “प्रभु” अर “वाचा का दूत” कहा जावै। यो दूसरा भेजा गया जन वोए है जो प्रभु के खुद के मंदिर म्हा आवण वाला है। मरकुस अपनी सुसमाचार की किताब की शुरुआत म्हा मलाकी 3:1 की उन्हीं पंक्तियां का हवाला देवै। मरकुस रस्ता साफ करण वाले का नाम यूहन्ना बतावै, जो जंगल म्हा था। इसते वो दूसरा भेजा गया जन उस बखत मरकुस के कने अनाम रहग्या। पुराणा नियम एक इसे दूत की बात जोहते-जोहते बंद होवै जो प्रभु खुद है। नया नियम उससे दूत के चलके आण से शुरू होवै।)

C. एकलौते बेटे पर धरी गई लकड़ी — अब्राहम अर इसहाक पहाड़ पर

C1. Genesis 22:2

अपणे बेटे नै, अपणे एक्कोए बेटे इसहाक नै, जिस तै तू प्यार करै सै, ले जा --> अर उसनै ओड़ै होम-बलि करकै चढ़ा दे।

C2. Genesis 22:6

अब्राहम नै होमबलि की लाकड़ी लई अर अपणे बेटे इसहाक पै धरी --> अर दोनू भेल्याम्ही चाल पड़े।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:6 म्ह, बाप लकड़ी नही ढोवै। इसहाक पहाड़ी पै लकड़ी ढोवै सै। अब्राहम इसहाक नै उस लकड़ी के ऊपर लेटावैगा। उस लकड़ी के खातर हिब्रू शब्द *ets* (H6086) सै। *ets* एक जीवते होड़ पेड़ के खातर आम शब्द सै। *ets* कटी होड़ लकड़ी के खातर भी आम शब्द सै। *ets* वोए शब्द सै जो जीवन के पेड़ खातर बरता जावै सै। *ets* वोए शब्द सै जो बाग के बिचाळै खड़े पेड़ खातर बरता जावै सै।)

C3. Genesis 22:7

होम बलि के लिए मेम्ना कित्ते है? --> परमेश्वर आप ही अपने खातर मेम्ना दे देगा।

C4. Genesis 22:13

एक मेढ़ा जो अपणे सींग तै झाड़ी म्ह फँस्या था --> उसनै अपणे बेटे के बदले होमबलि करकै चढ़ाया।

Genesis 22:14

प्रभु के पहाड़ पर यो देखा जावैगा।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:7 म्ह बेटे का सवाल दुबारा सोचो: मेम्ना कित्त सै? अब्राहम इस सवाल का जवाब देवै सै। अब्राहम का जवाब उसकी सोच तै भी आगे पहुँचै सै। अब्राहम कहवै सै, "परमेश्वर होमबलि खातर अपणे आप ताहीं मेम्ना जुटावैगा।" यो वाक्य दो मतलब धार सकै सै। एक मतलब यो सै के परमेश्वर अपणे इस्तेमाल खातर एक मेम्ना ल्यावैगा। दूसरा मतलब यो सै के परमेश्वर अपणे आप ताहीं मेम्ने के रूप म्ह देवैगा। जो परमेश्वर नै उस दिन असल म्ह दिया वो एक मेढ़ा था, मेम्ना कोनी। मेढ़ा एक पूरा बड्डा होया नर भेड़ होवै सै। यो मेढ़ा बेटे की जगहां मरग्या, अपणे सींगां म्ह फँस्या होया। इसहाक का सवाल एक मायने म्ह पहाड़ पै जवाब पाग्या। इसहाक का सवाल दूसरे मायने म्ह खुल्ला भी रहग्या। एक मेम्ना अभी भी बाकी सै। अब्राहम उस जगहां का नाम भविष्य काल म्ह एक वादे के साथ धरै सै: "यहोवा के पहाड़ पै यो देख्या जावैगा।")

अलग नजरिया, एक ही दृश्य — वो बेटा जिसनै लकड़ी ढोई, अर वो बेटा जिसनै क्रूस ढोया

Genesis 22:6

अब्राहम नै लकड़ी अपने बेटे इसहाक पर धरी --> और वे दोनू साथ-साथ गए।

यूहन्ना 19:17 फेर सिपाही यीशु नै ले गए, अर यीशु अपना क्रूस ठाए होए उस जगहां तक बाहर गया, जो "खोपड़ी" यानी इब्रानी भाषा म्ह "गुलगुता" कुहावै सै।

फेर सिपाही यीशु नै ले गए, अर यीशु अपना क्रूस ठाए होए उस जगहां तक बाहर गया।

यूहन्ना 19:18 उड़ै उननै उस ताहीं अर उसके गेल्या और दो माणसां ताहीं क्रूस पै चढ़ाया, एक इस ओड़ अर एक दुसरी ओड़, अर बिचाळै यीशु ताहीं।

ओड़ें उननै उसनै क्रूस पै चढ़ाया + यीशु बिचाळै था।

(मेरे निजी विचार: एक बाप, एक ही बेटा जिसतै बाप प्यार करै सै, एक पहाड़ी, बेटे की अपनी पीठ पै लाकड़ी धरी होई, अर बेटा उस लाकड़ी के तळे चढ़ता जावै सै। यो नजारा बाइबल म्ह दो बार होया। पैहली बार, उत्पत्ति 22 म्ह, परमेश्वर नै छुरी नै रोक दिया। परमेश्वर नै बेटे की जगहां एक मेढ़ा धर दिया। दूसरी बार, क्रूस पै, किसी नै मौत नै नही रोक्या। इस बार, बेटा खुद बदळे म्ह दिया गया। दोनू नजारां म्ह एक और फर्क देखो। इसहाक नै पूछ्या, "मेढ़ा कित्त सै?" उस दिन इसहाक के सवाल का कोए जवाब नही मिल्या। जवाब बाद म्ह, यरदन नदी पै, यूहन्ना की ओड़ तै आया। यूहन्ना नै एक आदमी की ओड़ इशारा करया जो उसकी ओड़ चालता आवै था।)

C5. यूहन्ना 1:29 दुसरे दिन यूहन्ना नै यीशु ताहीं अपनी ओड़ आन्दे देखकै बोल्या, "देखो, यो परमेश्वर का मेम्ना सै जो दुनिया का पाप ठावै सै।

देखो, यो परमेश्वर का मेम्ना सै जो दुनिया का पाप ठावै सै।

C6. Genesis 22:2

यूहन्ना 3:16 क्यूँके परमेश्वर नै दुनिया के माणसां तै इसा प्यार राख्या के उसनै अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताके जो कोए उसपै बिश्वास करै, वो नाश कोनी होवै, पर अनन्त जीवन पावै। [G3439 monogenes ■]

तेरा एकलौता बेटा, जिसनै तू प्यार करै है --> उसनै अपना एकलौता बेटा दे दिया।

C7. इब्रानियों 11:17 बिश्वास ए तै अब्राहम नै, परखे जाणकै बखत म्ह, अपणे बेटे इसहाक ताहीं बलिदान चढ़ाया, उस्से नै परमेश्वर के वादा ताहीं पाया, क्यूँके वो अपणे इकलौते बेटे की बलि देण खातर भी तैयार होग्या था। (18) अर जिसतै न्यू कहा गया था, "इसहाक तै तेरा वंश कुहावैगा," वोए अपणे एकलौते बेटे ताहीं बलिदान चढ़ाण लाग्या। (19) क्यूँके उसनै मान लिया, के परमेश्वर सामर्थी सै के इसहाक ताहीं मरे होया म्ह तै जिन्दा कर सकै सै। यो इसाए था के उननै इसहाक ताहीं मौत के मुँह तै उल्टा पा लिया हो, उदाहरण की रीत पै वो उस ताहीं फेर मिल्या।

उसने अपने इकलौते बेटे नै चढ़ावे म्हा चढ़ा दिया --> या मानके के परमेश्वर उसने मरया होया म्हा तै भी उठाण म्हा समर्थ था।

(मेरे निजी विचार: इब्रानियों की किताब का लेखक इसहाक खातर वो ई यूनानी शब्द काम करै जो यूहन्ना यीशु खातर काम करता। वो शब्द है "एकलौता," मोनोजिनेस (G3439)। इब्रानियों का लेखक बताता है के अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ते बखत के सोच रहा था। अब्राहम सोच रहा था के परमेश्वर लड़के नै मरे म्हाँ जिन्दा कर सकता। अब्राहम नै पहाड़ी के नीचे खड़े जवानां नै कहा, "मैं और लड़का उधर जावांगे और पूजा करांगे, और फेर तुम्हारे कान्ही आवांगे।" अब्राहम नै आस थी के वो इसहाक के साथ पहाड़ी सै नीचे वापस आवैगा। इब्रानियों का लेखक कहता है के अब्राहम नै इसहाक नै "एक चित्र म्हाँ" वापस पाया। इस्से जगां चित्र का मतलब है एक तस्वीर या एक निशान। हुकम के तीन दिन पाछै, वो बेटा जो मेरे के बराबर था, जिन्दा वापस आ गया।)

जगह पर एक टिप्पणी — एक सहायक टिप्पणी, ना कि छन्दां का सीधा दावा

2 Chronicles 3:1

सुलेमान नै यरूशलेम म्हा मोरियाह पहाड़ पै यहोवा का घर बणाणा शुरू करया।

[आयतां का जोड़ आपस में करया गया - एक भी आयत इसे अकेल्ले कहती नहीं है।]

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:2 उस जगहां का नाम बताबै सै जित परमेश्वर नै अब्राहम नै भेज्या, मोरियाह देश। 2 इतिहास 3:1 उस जगहां का नाम बताबै सै जित सुलेमान नै मंदिर बणाया, मोरियाह पहाड़, यरूशलेम म्हा। इसहाक की लगभग बलि की पहाड़ी अर पाछै के सारे मंदिर बलिदानां की पहाड़ी का इस करके एके नाम सै। यरूशलेम भी वोए शहर सै जित सिपाहियां नै यीशु ताहीं शहर की कीवाड़ के बाहर सूली पै चढ़ाया। जो आयतां म्हा लिखा सै वोए बताओ। आयतां न्ही बताती के गुलगुता वोए चट्टान थी जो मोरियाह थी। आयतां बताती सैं के नाम एके सै, पहाड़ियां की चोटी एके सै, अर शहर भी एके सै। अब्राहम के खुद के शब्द थे "यहोवा के पहाड़ पै दिख्या जावैगा।" अब्राहम नै ये शब्द भविष्य काल म्हा कहे थे।)

समापन

यूहन्ना 8:56 थारा पूर्वज अब्राहम मेरा दिन देखण की आस म्हा घणा मगन था, अर उसने देखा अर आनन्द करया।" (57) यहूदियां नै उस ताहीं कहा, "इब ताहीं तू पचास साल का कोनी, फेरभी तनै अब्राहम ताहीं देखा सै?" (58) यीशु उनतै बोल्या, "मैं थमनै साच्ची-साच कहूँ सूँ, के पैहल्या इसके के अब्राहम पैदा होया, मै सूँ।" (59) या बात सुणके माणसां नै यीशु ताहीं मारण खातर पत्थर ठाए, पर यीशु लुहकके मन्दर तै लिकड़ गया।

अब्राहम के होण से पहले, मैं हूँ --> फेर उन्होंने उसपर पत्थर मारण खातर उठाए।

(मेरे निजी विचार: इन दोणु द्रश्यां नै आमने-सामने धरो अर फर्क नै सिखण दो। झाड़ी पै, आग म्हा तै आवण आळी आवाज कहवै सै मैं हूँ। मूसा झाड़ी पै अपना मूँह छिपा लेवै सै। मंदिर म्हा, एक आदमी भीड़ के स्याम्ही खड्या होके कहवै सै मैं हूँ। भीड़ पत्थर उठा लेवै सै। भीड़ नै इस म्हा कोए भ्रम कोनी था के यीशु के कहा। भीड़ नै यीशु की बात नै पूरी तरियां तै समझ लिया था। भीड़ नै यीशु के शब्दां नै पत्थर मारण जोगा समझ्या। या भी ध्यान दो के यीशु नै न्ही कहा "इब्राहीम तै पहल्यां, मैं था।" यीशु नै कहा मैं हूँ।)

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

1. उत्पत्ति 1:26 — अर परमेश्वर नै कहा, आओ हम मानस नै अपने स्वरूप म्हा बणावां:

- a) म्हारी सूरत के मुताबिक
- b) देख, वो घणा अच्छा था
- c) परमेश्वर के स्वरूप म्हा उसने उसने रच्या

2. उत्पत्ति 16:13 — अर उसने प्रभु का नाम धरया जो उसकी सुण के बोल्या:

- a) हे परमेश्वर, तू मन्त्रै देखता है
- b) मन्त्रै परमेश्वर नै आमने-सामने देखा है
- c) मैं यहाँ हूँ; मन्त्रै भेज

3. निर्गमन 3:14 — अर परमेश्वर नै मूसा नै कहा:

- a) मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ
- b) मैं वही हूँ जो मैं हूँ
- c) मैं यहोवा हूँ, और कोई दूजा नहीं

4. यूहन्ना 8:58 — यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहूँ छूँ:

- a) थारा बाप अब्राहम मेरे दिन नै देखण खातर हरख्या
- b) अब्राहम के होण से पहलां, मैं हूँ
- c) परमेश्वर नै किसी मनुष्य ने कदे नहीं देखा

5. न्यायियों 13:22 — और मानोह ने अपनी घरवाली से कहा, हम जरूर मर जावांगे:

- a) क्यूँके मै अशुद्ध होठां आळा माणस सूं
- b) क्यूँके जिस जगहां पै तू खड्या सै वा पवित्र भोम सै
- c) क्यूँके म्हनै परमेश्वर नै देख्या

6. यहोशू 5:15 — और यहोवा की सेना के सेनापति ने यहोशू से कहा:

- a) अपने पैर तें अपना जूता उतार
- b) क्या तू म्हारे पक्ष म्ह है, या म्हारे बैरियां के पक्ष म्ह?
- c) अपनी मालकिन के पास लौट जा

7. उत्पत्ति 22:8 — परमेश्वर होम-बलि खात्तर अपने आप एक मेघा दे देगा:

- a) अर उसनै अपने बेटे इसहाक पै धर दिया
- b) फेर वे दोनू गेल्यां चाल्या गए
- c) आग अर लकड़ी नै देख

जवाब की कुंजी: 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

यो अध्ययन कस्यां शाखावां मं बंटता सै

छाया किस तरियां ज्योति की ओर इशारा करै सै: इसहाक की पीठ पै धरी लकड़ी (उत्पत्ति 22:6) अर परमेश्वर के बेटे की पीठ पै धरा क्रूस (यूहन्ना 19:17)। छाया पहाड़ पै दिखी। शरीर नगर के बाहरा दिख्या।

--> साइड की बात: उत्पत्ति 1:26 का "हम" अर "हमारा" अर व्यवस्थाविवरण 6:4 का "एक ही यहोवा" - इन दोनूं नै साथ मिला के देखो तो यह पूरे "गॉडहेड" के अध्ययन का द्वार खोल दे सै। गॉडहेड एक ही परमेश्वर सैं, जिसम्ह पिता, बेटा, अर पवित्र आत्मा तीन अलग-अलग जन के रूप म्ह सारी बाइबल म्ह बतया गया सै। यह अध्ययन तो बस उस पूरे अध्ययन की कगार नै ही छूया सै।

--> संभावित प्रकाशन: याकूब नै उत्पत्ति 32 म्ह कुश्ती लड़ण आळे तै उसका खुद का नाम पूछ्या अर उस नै मना कर दिया (उत्पत्ति 32:29)। मानोह नै यहोवा के दूत तै उसका खुद का नाम पूछ्या अर बताया गया के नाम पिली (H6383) सै, जो जाणण के ताई घणा ए अचम्भा सै (न्यायियों 13:18)। फेर यशायाह कहवै सै के म्हारे ताई जन्मे बालक के अचम्भा, पेले (H6382), उस्से मूल तै, कहाया जावैगा (यशायाह 9:6)। जो नाम पुराणे नियम म्ह छिपाया गया था, वो एक बालक पै घोषित करया गया सै। बाइबल के आखिर म्ह, सुर्ग तै बाहर आवंदे होए, ईसू के फेर बी एक नाम सै जिसनै उसके सिवाय और कोए कोनी जानदा (प्रकाशितवाक्य 19:12)। नाम दिया गया सै, अर नाम इस अध्ययन म्ह बताई गई बात तै भी गहरा सै।

यूनानी मुख्य शब्द

“एकलौता जनमया” — G3439 monogenes — एकलौता जन्म्या; अपनी तरियां का इकलौता; अपनी किस्म का इकलौता मोनोजेनेस पुत्र खात्तर काम म्ह लिया जावै सै। मोनोजेनेस इब्रानियों 11:17 म्ह इसहाक खात्तर भी काम म्ह लिया गया सै।

“घोषित करया” — G1834 exegeomai — बाहर लेजाणा; बाहर ल्यावणा; पूरा-पूरा बताणा; जाणू करवाणा किसे नै परमेश्वर नै कदे ना देख्या। एकलौते बेटे नै परमेश्वर ताहीं खुल्लम-खुल्ला मैदान म्ह ल्या दिया, जित परमेश्वर ताहीं देख्या जा सकै सै।

HEBREW KEYWORDS ke ibrani shabd

“दूत / संदेशवाहक” — H4397 malak — भेज्या होया कोए; एक संदेशवाहक; एक स्वर्गदूत यो शब्द एक काम बतावै है, ना के कोई सुभाव। यो शब्द आदमियां खात्तर बरतया जावै है। यो शब्द नबियां खात्तर बरतया जावै है। यो शब्द स्वर्गीय प्राणियां खात्तर बरतया जावै है। यो शब्द अपने आप म्ह कदी न्ही बतावै के भेज्या गया प्राणी क्या है। यो शब्द अपने आप म्ह सिर्फ इतना बतावै है के कोई भेज्या गया था। बाकी बात आस-पास का बाइबल पाठ बतावै है। इन घटनावां म्ह आस-पास का बाइबल पाठ बाकी बात बताई देवै है।

“परमेश्वर” — H430 elohim — परमेश्वर; देवता; सच्चा परमेश्वर एलोहीम एक बहुवचन रूप सै। एलोहीम शब्द एक सच्चे परमेश्वर खात्तर बार-बार एकवचन क्रियावां के गैल यूज होंदा सै। यो शब्द अपने आप म्ह वा पूर्णता समां सै जिसकी यो अध्ययन जांच कर रहा सै।

“एक” — H259 echad — एक; एकजुट; पहला एकाद वो शब्द सै जो 'यहोवा म्हारा परमेश्वर एक ए यहोवा सै' म्ह आवै सै। एकाद वोए शब्द सै जो साँझ अर भोर नै मिलके ONE दिन कहवाण खात्तर बरतया जावै सै। एकाद वोए शब्द सै जो माणस अर उसकी घरआळी के ONE देह होण खात्तर बरतया जावै सै।

“एकलौता बेटा” — H3173 yachiyd — इकल्ला; एक ए एक; अकेल्ला; लाडला उत्पत्ति 22 म्ह इसहाक नै तीन बार "तेरा एकोए बेटा" कहा गया सै। यचीद का मतलब सै एकोए अर अनूठा।

“लकड़ी / रुख” — H6086 ets — पेड़; लकड़ी; इमारती लकड़ी; तख्ता; डंडा एट्स एक इब्रानी शब्द सै जो जिंदा रुख अर काट्टी होई लकड़ी दोनुआं नै दशवै सै। एट्स वोए शब्द सै जो अब्राहम नै इसहाक पै धरी लकड़ी खात्तर बरता।

“गुप्त / अद्भुत” — **H6383 piliy** — अद्भुत; इसा अद्भुत के जाण्या ए ना जा सकै
पीलीय वो शब्द है जो प्रभु का दूत मानोह नै अपने नाम बताण खातर देता है। पीलीय उसी मूळ तें आया है जित्ते तें यशायाह 9:6 का नाम "पेले" आया है।

“सरदार / राजकुमार” — **H8269 sar** — एक मुखिया; एक सरदार; एक सेनापति; एक राजकुमार; एक हाकिम
सर वो पदवी है जो यरीहो के बाहर तनी तलवार वाले माणस नै अपने खातर बताई।

“मैं हूँ” — **H1961 hayah** — होणा; अस्तित्व मैं होणा; बणणा
हायाह वो मूल शब्द है जो जलती झाड़ी पै "मैं जो हूँ सो हूँ" के पीछे है।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Haryanvi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).